

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2016—कार्तिक 2, शक 1938

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2016

फा. क्र. 32-2014-चार-विधि.निर्वा.-252.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-म.प्र.-वि.स.-(32/2014)-2016, दिनांक 28 सितम्बर 2016 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।

एस. एस. बंसल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2016, 06 आश्विन, 1938 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स. (32/2014)-2016.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर खण्डपीठ की निर्वाचन याचिका संख्या 32/2014 (अब्दुल नफीस बनाम सुरेन्द्र नाथ सिंह एवं अन्य) जो कि श्री अब्दुल नफीस ने श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह के मध्यप्रदेश राज्य के 153—भोपाल मध्य, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नवम्बर, 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 23 अगस्त 2016 को दिये गये अधिनिर्णय/आदेश को प्रकाशित करता है।

आदेश से,
हस्ता./-

(अनुज जयपुरियार)
सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 28th September, 2016, 06 Asvina, 1938 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA-(32/2014)-2016.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order of the Hon'ble High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Bench dated 23rd August 2016 in Election Petition No. 32 of 2014 (Abdul Nafees Vs. Surendra Nath Singh) filed by Shri Abdul Nafees challenging the Election of Shri Surendra Nath Singh from 153—Bhopal Madhya Legislative Assembly Constituency of Madhya Pradesh State, held in November, 2013.

IN THE HIGH COURT OF MAHDYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

ELECTION PETITION NO. 32/2014

Petitioner :

Abdul Nafees S/o Shri Abdul Rashid Khan, aged about 42 years, R/o H.No. 43/1, Saeedia School Road, Meghwarpara, Itwara Road, Bhopal (M. P.).

VERSUS

Respondents :

Surendra Nath Singh, aged about 55 years, S/o Shri Balbhadra Singh, R/o Nehru Nagar, Kotra Sultanabad, Bhopal (M.P.).

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80, 80-A 81 AND SECTION 100, 101 (d)(iv) OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE'S ACT, 1951

ORDER

E.P. No. 32/2014

23-08-2016

Shri J. A. Shah, learned counsel for the petitioner.

Shri P. D. Gupta, learned counsel for the respondent.

The order of the Hon'ble Supreme Court dt. 30-06-2016 has been filed by the Registry. In the said order it is held that the order dt. 11-02-2014 by which. delay in filing the election petition was condoned by this Court is violative of the provisions of Section 86 & 81 of the Representation of Peoples Act, 1950 and has, therefore, set aside the said order and has declared that the election petition is not maintainable on the ground of delay.

Thus, in compliance with the said order the election petition is **dismissed**.

No order as to costs. Parties to bear their costs.

In terms of Section 103 of the Representation of Peoples Act, 1950 the order passed by this Court shall be transmitted to the Election Commission of India, Chief Electoral Officer, Bhopal & Speaker of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha.

Sd/-
(ATUL SREEDHARAN)
Judge.

By order,
Sd/-
(ANUJ JAIPURIAR)
Secretary,
Election Commission of India.